



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1979/भाद्र 8, 1901

No. 343]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1979/BHADRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

वस्त्र आधुनिक का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1979

का. आ. 491 (अ).—सूती वस्त्र (नियंत्रण) अधिनियम, 1948 के
खंड 22 में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा
वस्त्र आधुनिक की अधिसूचना सं. सी ई आर/3/69, दिनांक 19 सितंबर,
1969 में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

1. पैराग्राफ तीन की ओर उसके नीचे दी गई टिप्पणी के साथ
निम्नलिखित पैराग्राफ और टिप्पणी प्रविष्ट किये जाएंगे,
अर्थात् :—

“तीन ई. धाँसी, साड़ी, बंझीट, रुमाल, तकिये के गिलाफ,
नैपकिन और तौलिये आदि, जो विहित लम्बाइयों में
बचे जाते हैं, को छोड़कर, अनियंत्रित वस्त्र के प्रत्येक
नमूने पर इस अधिसूचना के अनुसार होने वाले मार्किंग
के अतिरिक्त निम्नलिखित मार्किंग भी किये जाएंगे,
अर्थात् :—

(एक) मुख-पट्ट पर इस अधिसूचना के अनुसार किये जाने
वाले मार्किंग के ठीक नीचे ही “अधिकतम खुदरा
मूल्य प्रति मीटर” ये शब्द तथा अधिकतम खुदरा
मूल्य प्रति मीटर की राशि अंकों में और उत्पाद
शुल्क और सब स्थानिक कर सहित” ये शब्द ।

(दो) प्रत्येक मीटर पर किनासी से 2.54 सेंटीमीटर से अधिक
दूरी पर नहीं “अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमीटर”
ये शब्द तथा अधिकतम खुदरा मूल्य प्रतिमीटर की
राशि अंकों में और “उत्पादशुल्क और सब स्थानिक
कर सहित” ये शब्द :

बशर्ते कि इस पैराग्राफ की शर्तों ऐसे अनियंत्रित वस्त्र पर
लागू नहीं होंगी जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य
6.36 रुपये प्रति मीटर से अधिक हो ;

और बशर्ते कि पैराग्राफ तीन ए में दिये गये निर्देश इस
पैराग्राफ के अन्तर्गत आने वाले अनियंत्रित वस्त्र पर लागू
नहीं होंगे ;

और बशर्ते कि कताई कारखाना न रखने वाले उत्पादक द्वारा
उत्पादित वस्त्र पर जिसकी किसी प्रोसेसर द्वारा आगे
प्रोसेसिंग हुई है इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट प्रकार से
मूल्य की मुहर लगाई जाएगी ।

टिप्पणी (एक) इस पैराग्राफ के निमित्त "अधिकतम खुदरा मूल्य" इस उक्ति से तात्पर्य प्रति मीटर खुदरा मूल्य है जिसमें वेंय उत्पाद-शुल्क और वेंय सब स्थानिक-कर, यदि कोई हों, भी शामिल हैं।

(बी) इस पैराग्राफ के निमित्त "प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग" हुई है इस उक्ति में कलेंडरिंग की प्रोसेस भी शामिल है।

(सी) इस पैराग्राफ की शर्तों औद्योगिक उपयोग के लिये उद्योग को सीधे दिये गये वस्त्र पर लागू नहीं होंगी।

'तीन एफ, संकण्डस, की दशा में जिसकी परिभाषा निम्न लिखित पैराग्राफ छः (4) में दी गई है, और जो उपर्युक्त पैराग्राफ तीन ई का विषय है, पहले ही मुहर किये गए अधिकतम खुदरा मूल्य के अतिरिक्त "संकण्डस" यह शब्द और उत्पाद-शुल्क तथा सब स्थानिक-कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य जिस पर विनिर्माता ऐसे वस्त्र को बेचना चाहे की मुहर उक्त पैराग्राफ तीन ई में विहित प्रकार से लगाएगा।'

2. पैराग्राफ आठ के उप-पैरा 2 (ए) में, "तीन डी" इन अकों और अक्षरों के बाद और अंक "चार" के पहले "तीन ई, तीन एफ" ये अंक, अक्षर और चिह्न अंतःस्थापित किये जाएंगे।

3. पैराग्राफ आठ के उप-पैरा (4) में "तीन डी" इन अकों और अक्षरों के बाद "तीन ई और तीन एफ" ये अंक शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किये जाएंगे।

4. यह संशोधन तत्काल प्रभावी होगा।

[सं. सी ई आर/3/79]

गौरीशंकर भार्गव, संयुक्त वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

Office of the Textile Commissioner

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1979

S.O. 491(E).—In exercise of the powers conferred on me by Clause 22 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby make the following amendments to the Textile Commissioner's Notification No. CER/3/69, dated the 19th September, 1969, namely :—

In the said Notification :—

1. After Paragraph IIID and the note given thereunder, the following Paragraphs and the note shall be inserted namely :—

"IIIE—On each piece of non-controlled cloth other than dhoti, saree or bed-sheets, handkerchief,

pillow-cases, napkins and towels etc. which are sold in specified length, in addition to the markings to be made in accordance with this notification, the following markings shall be made, namely :—

(i) On the face plait immediately below the markings made in accordance with this notification, the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER METRE" and the amount of maximum retail price per metre in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND ALL LOCAL TAXES".

(ii) On every metre at a height not exceeding 2.54 cms. from the selvedge, the words "MAXIMUM RETAIL PRICE PER METRE" and the amount of the maximum retail price per metre in figures and the words "INC. EXCISE DUTY AND ALL LOCAL TAXES".

Provided that nothing in this paragraph shall apply to non-controlled cloth for which the maximum retail price exceeds Rs. 6.36 per metre ;

Provided further that the directions contained in paragraph IIIA, shall not apply to non-controlled cloth to which this Paragraph applies ;

Provided also further that the cloth which is produced by the producer having no spinning plant and which is further processed by a processor shall be stamped with the price in the manner indicated in this paragraph.

Note : (i) For the purpose of this paragraph, the expression "Maximum Retail Price" shall mean Retail Price per metre inclusive of excise duty payable thereon and all local taxes, if any, payable,

(ii) For the purpose of this paragraph, the term "processed by a processor" would also include the process of calendering,

(iii) Nothing in this paragraph shall apply to cloth delivered directly to the Industry for industrial use."

"IIIF—In the case of seconds, of cloth as defined in paragraph VI(4) below and which is the subject matter of paragraph IIIE above, the word "SECONDS" and in addition to the maximum retail price already stamped thereon the maximum retail price inclusive of excise duty and all local taxes at which the manufacturer desires to sell such cloth shall be stamped in the manner prescribed in the said paragraph IIIE."

2. In paragraph VIII sub-para 2(a), after the figures and letter "IIID" and before the figure "IV", the figures, letters and mark "IIIE, IIIF", shall be inserted.

3. In paragraph VIII sub-para (4), after the figure and letter "IIID," the figures, word and letters "IIIE and IIIF" shall be inserted.

4. This amendment shall come into force with immediate effect.

[No. CER/3/79]

G. S. BHARGAVA, Jt. Textile Commissioner